

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 99] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 1968/चैत्र 6, 1890

No. 99] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 1968/CHAITRA 6, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
COOPERATION

(Department of Agriculture)

ORDER

New Delhi, the 23rd March 1968

S.O. 1123.—In this Ministry's Notification S.O. No. 96, dated the 4th January, 1968, for the words and letters "31st March, 1968" read "31st July, 1968."

[No. 24-7/67-L.D.III.]

S. J. MAJUMDAR, Addl. Secy.

